

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 449]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 अगस्त 2021 — श्रावण 25, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 अगस्त 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2020/1/5. — इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 सितंबर, 2020 द्वारा वर्ष 2021 के लिए अवकाश घोषित किए गए हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट, 1881 (1881 का क्र. 26) के अंतर्गत जारी अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक अवकाश की अनुसूची में एवं सामान्य अवकाश की अनुसूची पर “मोहर्रम” हेतु गुरुवार दिनांक 19 अगस्त, 2021 को अवकाश घोषित किया गया है.

2. मुस्लिम समाज के अधिकृत संगठनों द्वारा अवगत कराया गया है कि चांद के अनुसार दिनांक 20 अगस्त, 2021 को बरोज जुमा मोहर्रम आशूरा पड़ेगा.
3. अतएव राज्य शासन एतद्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2021 दिन गुरुवार के लिए घोषित अवकाश को निरस्त करते हुए दिनांक 20 अगस्त, दिन शुक्रवार को “मोहर्रम” के लिए सार्वजनिक/सामान्य अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव.